

# OSWAL OVERSEAS LIMITED

CIN-L74899DL1984PLC018268

(Sugar Division)

Village Aurangabad, Teh. Nawabganj, P.O.-Grem, Distt. Bareilly (U. P.) 243407

Phone : 05825-226551 (M) 09997300551-552, Fax : 05825-226763



To,  
The Manager,  
Listing Department  
BSE Limited  
Floor 25, PJ Towers,  
Dalal Street Fort  
Mumbai – 400001

Dear Sir/ Madam,

**Sub: Submission of Copy of Publication of Audited Financial Results in newspapers for the quarter and year ended March 31, 2024**

Please find enclosed the following documents in due compliance of Regulation 33 and 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for your kind record:

1. Copy of Publication of Audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 in English Daily (Business Standard).
2. Copy of Publication of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024 in Hindi Daily (Business Standard).

Thanking You  
Yours Faithfully

@ For OSWAL OVERSEAS LIMITED

(LALIT KUMAR)

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER



Place: New Delhi

Date: 31.05.2024



**Central Bank of India**  
 Chandher Mukhi, Nariman Point Mumbai - 400 021  
 Tel. 022-66387880, FAX 022-22044336,  
 Web Site : www.centralbankofindia.co.in

Central Bank of India invites Request for Proposal (RFP) vide Tender Ref No.: CO/HCM/IRP/2024-25/02 dated 31.05.2024 for "Engagement of Yoga Service Provider for ONLINE YOGA SERVICES TO EMPLOYEES OF CENTRAL BANK OF INDIA". For complete details, please visit Bank's website www.centralbankofindia.co.in under Live Tenders.

Last Date for submission of RFP is 21 June 2024.

(PRIYANKA MITRA)  
 Assistant General Manager  
 IRP-Human Capital Management

Place: Mumbai  
 Date: 31.05.2024

**TTVS MOTOR COMPANY LIMITED**  
 Registered Office: "Chaitanya" No.12 Khader Nawaz Khan Road Nungambakkam Chennai - 600066  
 CIN: L35921TN1992PLC02845 Website: tvtvmotor.com  
 Email: contactus@tvtvmotor.com Ph:044 28332115

**Notice of loss of share certificates**

NOTICE is hereby given that the following share certificate(s) issued by the company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holders / the legal heirs of the registered holders thereof have applied to the company for issue of duplicate share certificate(s)

Folio no.	Share cert. nos.	No. of shares	Distinctive nos.	Name of registered holder
K09492	9368	1071	23108644 to 231087518	KAMINI BHANUDAS DIVKAR RAJESH BHANUDAS DIVKAR

The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way, with the above share certificates.

Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) with the company at its registered office at the address given above within 15 days of publication of this notice, after which no claim will be entertained and the company will proceed to issue duplicate share certificates.

For TTVS Motor Company Limited  
 K Srinivasan  
 Company Secretary

Place: Chennai  
 Date: 31.05.2024

**ANAND RATHI**  
 Express Zone, A Wing, 8th Floor, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063 India  
 M/s S H A Enterprises Ref No: APPL0005358

**POSSESSION NOTICE**

Whereas, the Authorized Officer of the Anand Rathi Global Finance Limited, under the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demand Notice (details specifically mention in table below, hereinafter Demand Notice) under Section 13 sub-section 2 of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 calling upon the Borrower(s) (detail specifically mention in table below, hereinafter Borrower (s)) to repay the amount mentioned in the Demand Notice together with further and future interest thereon at the contractual rate of interest together with costs and charges and other monies payable (if any) from the date of Demand Notice onwards, till the date of payment and/or realization by ARGFL within 60 days from the date of receipt of the Demand Notice (hereinafter Amount Due).

The Borrower (s) and Co-borrower (s) having failed to repay the Amount Due, this notice is hereby given to the Borrower mentioned herein below in particular and public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the properties / Secured Assets (as defined under the Demand Notice) described herein below in exercise of powers conferred upon him/her under sub-section (4) of section 13 of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the date specifically mentioned herein below.

The Borrower and Co-borrower (s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties / Secured Assets and any dealings with the Properties / secured assets will be subject to the charge of Anand Rathi Global Finance Limited for an Outstanding Amount (specifically mentioned herein below) together with further and future interest thereon at the contractual rate of interest together with costs and charges and other monies payable (if any) till the date of payment and/or realization by ARGFL. The Borrower's attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act in respect of the time available to redeem the secured assets.

Borrower (s) Name Address: 1) M/s S H A Enterprises (Borrower), Plot No.1, Rajendra Nagar, Industrial Area, Mohan Nagar, Ghaziabad: 201005

Co-borrower(s) Name Address: (1) Mrs. Shashi Sharma (Co-Borrower), 5/15C, 2nd floor, Dhanpat Rai colony Sahibabad, Ghaziabad, UP - 201005, 2) Mr. Sudhir Sharma (Co-Borrower), 5/15C, 2nd floor, Dhanpat Rai colony Sahibabad, Ghaziabad, UP - 201005, 3) Mr. Ashwani Kumar Sharma (Co-Borrower), 5/15C, 2nd floor, Dhanpat Rai colony Sahibabad, Ghaziabad, UP - 201005

Amount Due as per Demand Notice with further interest as applicable : Rs. 69,13,382/- (Rupees Sixty Nine Lakhs Thirteen Thousand Three Hundred Eighty Two Only)	ROI	13.00%
Principal Outstanding	6,558,430	
EMI Amount Pending	299,075	
Broken Period Interest	11,842	
Legal charges	7,600	
Over Due interest	25,815	
EMI Bounce	10,620	
Total outstanding	69,13,382	

Date of Demand Notice: 14<sup>th</sup> March, 2024  
 Loan Agreement No: APPL0005358  
 Date of Possession: 30<sup>th</sup> May 2024

Details Of Secured Assets: Property Address : Entire Ground Floor & Second Floor with Roof Right, of Plot No 5/15 C & 5/15 D, out of Kheda No 1814 & 1815, situated in Dhanpat Rai Colony, Village Pasunda Pargana Loni Ghaziabad, Tehsil & District Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201005, East - Plot No. 5/15B, West - Plot No. 5/15E, North - 10.5 feet wide road, South - Other's Land

Date: 30<sup>th</sup> May 2024  
 Place: Delhi Sd/- Anand Rathi Global Finance Limited Authorized Officer

**ANAND RATHI**  
 Express Zone, A Wing, 8th Floor, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063 India  
 M/s S H A Enterprises Ref No: APPL0005358

**POSSESSION NOTICE**

Whereas, the Authorized Officer of the Anand Rathi Global Finance Limited, under the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demand Notice (details specifically mention in table below, hereinafter Demand Notice) under Section 13 sub-section 2 of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 calling upon the Borrower(s) (detail specifically mention in table below, hereinafter Borrower (s)) to repay the amount mentioned in the Demand Notice together with further and future interest thereon at the contractual rate of interest together with costs and charges and other monies payable (if any) from the date of Demand Notice onwards, till the date of payment and/or realization by ARGFL within 60 days from the date of receipt of the Demand Notice (hereinafter Amount Due).

The Borrower (s) and Co-borrower (s) having failed to repay the Amount Due, this notice is hereby given to the Borrower mentioned herein below in particular and public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the properties / Secured Assets (as defined under the Demand Notice) described herein below in exercise of powers conferred upon him/her under sub-section (4) of section 13 of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the date specifically mentioned herein below.

The Borrower and Co-borrower (s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties / Secured Assets and any dealings with the Properties / secured assets will be subject to the charge of Anand Rathi Global Finance Limited for an Outstanding Amount (specifically mentioned herein below) together with further and future interest thereon at the contractual rate of interest together with costs and charges and other monies payable (if any) till the date of payment and/or realization by ARGFL. The Borrower's attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act in respect of the time available to redeem the secured assets.

Borrower (s) Name Address: 1) M/s S H A Enterprises (Borrower), Plot No.1, Rajendra Nagar, Industrial Area, Mohan Nagar, Ghaziabad: 201005

Co-borrower(s) Name Address: (1) Mrs. Shashi Sharma (Co-Borrower), 5/15C, 2nd floor, Dhanpat Rai colony Sahibabad, Ghaziabad, UP - 201005, 2) Mr. Sudhir Sharma (Co-Borrower), 5/15C, 2nd floor, Dhanpat Rai colony Sahibabad, Ghaziabad, UP - 201005, 3) Mr. Ashwani Kumar Sharma (Co-Borrower), 5/15C, 2nd floor, Dhanpat Rai colony Sahibabad, Ghaziabad, UP - 201005

Amount Due as per Demand Notice with further interest as applicable : Rs. 69,13,382/- (Rupees Sixty Nine Lakhs Thirteen Thousand Three Hundred Eighty Two Only)	ROI	13.00%
Principal Outstanding	6,558,430	
EMI Amount Pending	299,075	
Broken Period Interest	11,842	
Legal charges	7,600	
Over Due interest	25,815	
EMI Bounce	10,620	
Total outstanding	69,13,382	

Date of Demand Notice: 14<sup>th</sup> March, 2024  
 Loan Agreement No: APPL0005358  
 Date of Possession: 30<sup>th</sup> May 2024

Details Of Secured Assets: Property Address : Entire Ground Floor & Second Floor with Roof Right, of Plot No 5/15 C & 5/15 D, out of Kheda No 1814 & 1815, situated in Dhanpat Rai Colony, Village Pasunda Pargana Loni Ghaziabad, Tehsil & District Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201005, East - Plot No. 5/15B, West - Plot No. 5/15E, North - 10.5 feet wide road, South - Other's Land

Date: 30<sup>th</sup> May 2024  
 Place: Delhi Sd/- Anand Rathi Global Finance Limited Authorized Officer

**NDA SECURITIES LTD.**  
 CIN: L74899DL1992PLC050366  
 Registered Office: E-1157, 2nd Floor, Kalkaji, New Delhi-110019  
 Tel: 011-46204000, Fax: 011-46204050  
 Email: legal@ndaindia.com, Website: www.ndaindia.com

**POSTAL BALLOT NOTICE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (collectively the "Act", which shall include any statutory modifications, amendments or re-enactments thereto), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44, Reg 25 (2A) & Reg 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations") and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), to approve the appointment of Mr. Akshay Saxena & Ms. Naina Singh as Independent Directors of the Company.

Pursuant to MCA Circulars, the Company has sent electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement by e-mail, on Thursday, 30<sup>th</sup> May 2024, to those members whose e-mail addresses are registered with Beetal Financial & Computer Services Private Limited, the Company's Registrar and Share Transfer Agent or Depository Participants as on the cut-off date of Friday, 24<sup>th</sup> May 2024. The communication of the assent or dissent of the members would only take place through remote e-voting. The notice of the postal ballot along with the Remote e-Voting instructions is also available on the Company's Website www.ndaindia.com, NSDL's website (www.evoting.nsdl.com) and also on the website of BSE Limited (www.bseindia.com).

The voting rights of the shareholders shall be reckoned on the basis of the equity shares of the Company held by them as on the cut-off date. Any person who is not a shareholder of the Company as on the cut-off date shall treat the postal ballot notice for information purposes only.

The company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide remote e-voting facility. The date and time of commencement of remote e-voting is w.e.f. Friday, 31<sup>st</sup> May, 2024 (9:00 a.m. IST) and shareholders are requested to record their assent or dissent on or before Saturday, 29<sup>th</sup> June 2024 (5:00 p.m. IST). The remote e-Voting module will be disabled by NSDL at 5:00 p.m. IST on Saturday, 29<sup>th</sup> June 2024 and remote e-voting will not be allowed thereafter.

For shareholders holding shares in physical form, whose email ID/Mobile No. is not registered/updated with the Company, are requested to register/update their email ID with Beetal Financial & Computer Services Private Limited. Requests can be sent via email to legal@ndaindia.com or call at 011-46204000. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Ms. Pallavi Mahatre, Sr. Manager, (NSDL) National Securities Depository Limited, or call on: 022-4886 7000 and 022- 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mahatre at evoting@nsdl.com.

For NDA Securities Limited  
 Sd/-  
 Shalini Chauhan  
 Company Secretary  
 M.No.:A71998

Place: New Delhi  
 Date: 30<sup>th</sup> May, 2024

**BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED**  
 Reg. Off: A-5 Pannamgadu Industrial Estate, Ramapuram Post, Nellore District, Andhra Pradesh 524401  
 Corp. Off: 443, Anna Salai, Teynampet, Chennai 600018 Ph: +91 44 24301000, Fax: +91 44 24364656  
 Corporate Identity Number: L40106AP1985PLC005318 Email: compliance@bgrenergy.com website: www.bgrcorp.com

**EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024** (₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1.	Total Income from Operations	17001	10667	101221	80627	101236	80627		
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	13300	(28226)	(67680)	(63519)	(68544)	(64444)		
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	13300	(28226)	(67680)	(63519)	(68544)	(64444)		
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13297	(21090)	(75215)	(47854)	(76080)	(48780)		
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	13828	(21069)	(74669)	(47872)	(75535)	(48798)		
6.	Equity Share Capital (Face value Rs.10/- each, fully paid)	7216	7216	7216	7216	7216	7216		
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)								
1.	Basic: Rs.	18.43	(29.23)	(104.23)	(66.32)	(105.07)	(67.21)		
2.	Diluted: Rs.	18.43	(29.23)	(104.23)	(66.32)	(105.07)	(67.21)		

**Notes:**

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the respective meetings held on May 29, 2024 and May 30, 2024, respectively.
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's website www.bgrcorp.com

For BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED  
 Arjun Govind Raghupathy  
 Managing Director

Place: Chennai  
 Date : May 30, 2024

**ANAND RATHI**  
 Express Zone, A Wing, 8th Floor, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063 India  
 M/s S H A Enterprises Ref No: APPL0005358

**POSSESSION NOTICE**

Whereas, the Authorized Officer of the Anand Rathi Global Finance Limited, under the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demand Notice (details specifically mention in table below, hereinafter Demand Notice) under Section 13 sub-section 2 of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 calling upon the Borrower(s) (detail specifically mention in table below, hereinafter Borrower (s)) to repay the amount mentioned in the Demand Notice together with further and future interest thereon at the contractual rate of interest together with costs and charges and other monies payable (if any) from the date of Demand Notice onwards, till the date of payment and/or realization by ARGFL within 60 days from the date of receipt of the Demand Notice (hereinafter Amount Due).

The Borrower (s) and Co-borrower (s) having failed to repay the Amount Due, this notice is hereby given to the Borrower mentioned herein below in particular and public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the properties / Secured Assets (as defined under the Demand Notice) described herein below in exercise of powers conferred upon him/her under sub-section (4) of section 13 of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the date specifically mentioned herein below.

The Borrower and Co-borrower (s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties / Secured Assets and any dealings with the Properties / secured assets will be subject to the charge of Anand Rathi Global Finance Limited for an Outstanding Amount (specifically mentioned herein below) together with further and future interest thereon at the contractual rate of interest together with costs and charges and other monies payable (if any) till the date of payment and/or realization by ARGFL. The Borrower's attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act in respect of the time available to redeem the secured assets.

Borrower (s) Name Address: 1) M/s S H A Enterprises (Borrower), Plot No.1, Rajendra Nagar, Industrial Area, Mohan Nagar, Ghaziabad: 201005

Co-borrower(s) Name Address: (1) Mrs. Shashi Sharma (Co-Borrower), 5/15C, 2nd floor, Dhanpat Rai colony Sahibabad, Ghaziabad, UP - 201005, 2) Mr. Sudhir Sharma (Co-Borrower), 5/15C, 2nd floor, Dhanpat Rai colony Sahibabad, Ghaziabad, UP - 201005, 3) Mr. Ashwani Kumar Sharma (Co-Borrower), 5/15C, 2nd floor, Dhanpat Rai colony Sahibabad, Ghaziabad, UP - 201005

Amount Due as per Demand Notice with further interest as applicable : Rs. 69,13,382/- (Rupees Sixty Nine Lakhs Thirteen Thousand Three Hundred Eighty Two Only)	ROI	13.00%
Principal Outstanding	6,558,430	
EMI Amount Pending	299,075	
Broken Period Interest	11,842	
Legal charges	7,600	
Over Due interest	25,815	
EMI Bounce	10,620	
Total outstanding	69,13,382	

Date of Demand Notice: 14<sup>th</sup> March, 2024  
 Loan Agreement No: APPL0005358  
 Date of Possession: 30<sup>th</sup> May 2024

Details Of Secured Assets: Property Address : Entire Ground Floor & Second Floor with Roof Right, of Plot No 5/15 C & 5/15 D, out of Kheda No 1814 & 1815, situated in Dhanpat Rai Colony, Village Pasunda Pargana Loni Ghaziabad, Tehsil & District Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201005, East - Plot No. 5/15B, West - Plot No. 5/15E, North - 10.5 feet wide road, South - Other's Land

Date: 30<sup>th</sup> May 2024  
 Place: Delhi Sd/- Anand Rathi Global Finance Limited Authorized Officer

**BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED**  
 Corporate Office: Carebrum IT Park B2 Building, 5th Floor, Kalyani Nagar, Pune, Maharashtra - 411014  
 BRANCH OFFICE OFFICE NO. 14th Floor Agarwal Metro Heights Netaji Subhas Palace Flampura New Delhi - 110034 Authorized Officer's Details: Name: Pardeep Kumar  
 Email ID: pardeep.kumar1@bajajfinserv.in, Mob No. 9855733149/8669189048/9034740761

**PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF THE SECURITY INTEREST ACT 2002 (Act)**

Notice is hereby given to the public in general that the below mentioned Borrower/co-borrower mortgaged the immovable property which is described hereunder to Bajaj Housing Finance Limited (BHFL) and the possession of the said immovable property (secured asset/property) has been taken over by the Authorized Officer in accordance of the SARFAESI Act 2002 and rules there to. The secured asset will be sold through public auction by bidding for realization of the loan dues, applicable interest, charges and costs etc., payable to BHFL as detailed below. The secured asset is being sold on 5-July-2024 and the bidding will be held on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" under the rule number 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules (hereinafter referred to as the rules) and on the terms and conditions specified here-under.

Loan account details/ BORROWER/S & GUARANTOR'S NAME & ADDRESS	1. Date & Time of e-auction	2. Last Date of Submission of EMD	3. Date & Time of the Property Inspection	4. Property Description	• Reserve Price	• EMD OF THE PROPERTY	• BID INCREMENT
LAN: H401HLL0945548 & H401HLLT0952309 1. SUNIL SHARMA (Borrower) At Plot No F 24 Flat No SF-02, 2nd Floor Ved Vihar Loni Dehat, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201102 2. KAMLESH DEVI (Co-Borrower) At Near Raja K Kothi, Amariheri (80) Jind, Haryana-126102 Total Outstanding: Rs. 27,27,504/- (Rupees Twenty Seven Lakhs Twenty Seven Thousand Five Hundred Four Only) Along with future interest and charges accrued w.e.f 23/05/2024	1) E-auction date :- 5-July-2024 between 11:00 am to 12:00 pm with unlimited extension of 5 minutes. 2) Last date of submission of EMD with KYC is:- 4-July-2024 up to 5:00 p.m. (IST).	3.) Date of inspection :- 03-Jun-2024 3-July-2024 between 11:00 am to 4:00 pm (IST).	4.) Description of the immovable property: All that piece and parcel of the property Flat no SF-2 2nd Floor, Plot No F-24 SF Ved Vihar, Ghaziabad Uttar Pradesh -201102.east : Plot No. F-33, West: Road 9.00 Mtrs. Wide, North : Plot No. F-25, South : Plot No. F-23	Reserve Price: Rs. 19,00,000 /- (Rupees Nineteen Lakhs Only) EMD : Rs. 1,90,000/- (Rupees One Lakh Ninety Thousand Only), 10% of Reserve Price. BID INCREMENT - RS. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only) & in Such Multiples			

**Terms and Conditions of the Public Auction are as under:**

- Public Auction is being held on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" and is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to Bajaj Housing Finance Limited.
- The Secured asset will not be sold below the Reserve price.
- The Auction Sale will be online through e-auction portal.
- The e-auction will take place through portal: https://bankauctions.in, on 5-July-2024 from 11:00 AM to 12:00 PM to onwards with unlimited auto extension of 5 minutes each.
- For detailed terms and conditions please refer company website URL: https://www.bajajhousingfinance.in/auction-notices or for any clarification please connect with Authorized officer.

Date: 31-05-2024 Place:- Delhi/NGR Sd/- (Pardeep Kumar) Authorized Officer, Bajaj Housing Finance Limited

**ANAND RATHI**  
 Express Zone, A Wing, 10th Floor, Western Express Highway, Diagonally Opposite Oberoi Mall, Goregaon (E), Mumbai - 400 063 India

**DEMAND NOTICE**

Whereas the borrowers/co-borrowers hereunder have availed the financial assistance from Anand Rathi Global Finance Ltd. We state that despite having availed the financial assistance, the borrowers/co-borrowers have committed various defaults in repayment of interest and principal amounts as per due dates. The account has been classified as Non-Performing Asset on the respective dates mentioned hereunder in accordance with the directives/guidelines issued by Reserve Bank of India. The Authorized Officer of Anand Rathi Global Finance Ltd. under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of power conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices on respective dates mentioned herein below under Section 13(2) of SARFAESI Act, 2002 calling upon the following borrowers/mortgagors to repay the amount mentioned in the notice together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned in the notices and incidental expenses, cost, charges etc. until the date of payment within 60 days from the date of the notices.

NAME OF THE BORROWER/CO-BORROWER/S / ADDRESS	NPA DATE	Rs. 1,02,66,288 /- (Rupees One Crore Two Lakhs Sixty-six Thousand Two Hundred Eighty-eight Only)
(1) M/s. S K Transport Service (Borrower), Property No. 1087, Entire Ground & Third Floor, Sector -21, Gurugram, Haryana: 122016.	09/05/2024	13.00%
(2) Mr. Abhishek Yadav (Co-Borrower), Property No. 1087, Entire Ground & Third Floor, Sector -21, Gurugram, Haryana: 122016.	DATE OF DEMAND NOTICE	Principal Outstanding 1,00,45,132 EMI Amount Pending 3,92,859 Broken Period Interest 36,275 Notice Charge 1,100
(4) Mr. Virender Kumar (Co-Borrower), Property No. 1087, Entire Ground & Third Floor, Sector -21, Gurugram, Haryana: 122016.	17-05-2024	Over Due interest 39,028 EMI Bounce 13,800 DSRA Amount -2,61,906
(5) M/s. V K Roadline (Co-Borrower), 39, Mustil ka Part of Kila no. 15, Bajghera Village, Bajghera, Haryana - 122017	RS. 1,03,50,000/-	Total outstanding 1,02,66,288
(6) M/s. Salasar Steels & Stamping (Co-Borrower), 39, Mustil ka Part of Kila no. 15, Bajghera Village, Bajghera, Haryana - 122017	APPL00004016	

**Security Assets Details: Property Address:** Entire Ground Floor and Entire Third Floor with Roof Rights, Part of Residential Built up Property Bearing No. 1087, land area measuring 275.08 Sq yards i.e 230.54 meters, situated in the residential Colony known as Sector 21, Urban Estate Gurugram Tehsil & Dist. Gurugram, Haryana. Boundaries: EAST by: Property no. 1086, West by: Property no. 1088, North by: Others Property, South by: Road 30 ft.

In the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers to pay the outstanding dues as mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of the date of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the applicable rules thereunder. In case you are desirous of making any representation in response to this notice, please mark the same to our Authorised Officers: Mr. Abhishek Chandra, Anand Rathi Global Finance Ltd. at 8th floor, "A" Wing, Express Zone Building, Western Express Highway Road, Goregaon (East), Mumbai: 400063, only to enable us to respond in time. Please note that we shall not be responsible for not responding to any of your representations made in response to this notice if the same is addressed to any other person or place. Please note that under Section 13(13) of the said Act, no Borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor.

Date: 17-05-2024 | Place: Gurugram Sd/- Anand Rathi Global Finance Limited, Authorised Officer

**POSSESSION NOTICE**  
 (for immovable property)

**Whereas,**

The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 28.11.2023 calling upon the Borrower(s) YASHVEER SINGH AND UPASNA GAUTAM to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.11,06,741.93 (Rupees Eleven Lakh Six Thousand Seven Hundred Forty One and Paise Ninety Three Only) as on 24.11.2023 and interest thereon.

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 29.05.2024

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.11,06,741.93 (Rupees Eleven Lakh Six Thousand Seven Hundred Forty One and Paise Ninety Three Only) as on 24.11.2023 and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**  
 APARTMENT NO. 06 HAVING SUPER AREA 686.41 SQUARE FEET ON 12TH FLOOR, TOWER S3B IN THE PROJECT KNOWN AS ANSAL SUSHANT AQUAPOLIS SITUATED IN VILLAGE DOONDAHARA, GHAZIABAD - 201010, UTTAR PRADESH

Date : 29.05.2024  
 Authorized Officer  
 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

**J&K Bank**  
 Serving To Empower

**NOTICE**

Notice is hereby given that the certificates in respect of the under - mentioned shares of J&K Bank have been lost/misplaced and the holders of the said shares have applied to J&K Bank Ltd/ M/s KFin Technologies Ltd. (Share Transfer Agent) for issue of Duplicate Share Certificates.

S. No	Name of the Shareholder	Folio No.	Certificate No.	Distinctive No.'s	No of Shares	Address
1.	Siraj-ud-Din Mir	JKB001154	502157	3907111-3922860	15750	Bus Stop, Saida Kadal, Srinagar, Jammu and Kashmir-190003
2.	Masood UI Nissa	JKB043511	504334	8789341-8795340	6000	Bani Tower Saloora, Canal Road Saloora, Tulmulla, Srinagar, Kashmir, India-191131

The Public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with above share Certificate(s). Any Person(s) who has/have any claim(s)/objection in respect of the said shares should lodge such claim(s)/objection with the Bank at the Corporate Headquarters, M. A. Road, Srinagar/Share Transfer Agent at the address given below, within fifteen days from the date of Publication of this notice, after which no claim(s) will be entertained and the Bank/Share Transfer Agent will proceed to issue Duplicate Share Certificates.

Share Transfer Agent  
 M/s KFin Technologies Ltd.  
 Selenium Tower B, Plot 31&32  
 Financial District, Nanakramguda,  
 Seringampally Mandal,  
 Hyderabad 500 032

Jammu and Kashmir Bank Limited  
 Board Secretariat  
 Corporate Headquarters  
 M. A. Road, Srinagar - 190 001, Kashmir

For Jammu and Kashmir Bank Ltd.  
 Ref. No.: 03/2024-25

Place: Srinagar  
 Date: 30<sup>th</sup> May, 2024

Sd/-  
 (Mohammad Shafi Mir)  
 Company Secretary

**OSWAL OVERSEAS LIMITED**  
 CIN No. - L74899DL1984PLC018268



